

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-140/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद् कुम्हारी, जिला-दुर्ग के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. कुम्हारी नगर पालिका परिषद् को 24 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	बजरंग चौक वार्ड
2	दुर्गा चौक वार्ड
3	गणेश चौक वार्ड
4	महामाया वार्ड
5	बाजार चौक वार्ड
6	गुरुघासीदास वार्ड
7	रामनगर वार्ड
8	शांति नगर वार्ड
9	शिव नगर वार्ड
10	शंकर नगर वार्ड
11	कैलाश नगर वार्ड
12	डंगनिया तालाब वार्ड
13	संजय नगर वार्ड
14	कांजी हाउस वार्ड
15	हाउसिंग बोर्ड वार्ड
16	परसदा वार्ड (ग्राम परसदा)
17	रामपुर वार्ड (ग्राम चोरहा)
18	तालाब पार वार्ड (ग्राम कुगदा)
19	आदर्श नगर डी.एम.सी. वार्ड (ग्राम कुगदा)
20	भारत नगर वार्ड (ग्राम कुगदा)
21	कबीर नगर वार्ड ( ग्राम कुगदा )
22	सत्य नगर वार्ड (ग्राम कुगदा )
23	इंदिरा नगर वार्ड (ग्राम जंजगिरी )
24	महात्मा गांधी वार्ड (ग्राम जंजगिरी )

## कुम्हारी नगर पालिका परिषद के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

### वार्ड क्रमांक 1 – बजरंग चौक वार्ड

- उत्तर में :- लट्ठी बाबा चौक से पुरानी हटरी होते हुए बाड़ी तक  
 पूर्व में :- बाड़ी से बड़ा तालाब किनारा उत्तर दिशा होते हुए जी.ई.रोड तक  
 दक्षिण में :- जी.ई.रोड बड़ा तालाब किनारे से नगर पालिका गौरव पथ मार्ग तक  
 पश्चिम में :- नगर पालिका गौरव पथ मार्ग से लट्ठी बाबा चौक तक

### वार्ड क्रमांक 2 – दुर्गा चौक वार्ड

- उत्तर में :- जय मॉ शीतला बर्तन दुकान से आजाद चौक से रामनारायण पटेल घर तक  
 पूर्व में :- रामनारायण पटेल के घर से तालाब पार होते हुए पुराना हटरी तक  
 दक्षिण में :- पुरानी हटरी से लट्ठी बाबा चौक होते हुए (महामाया मार्ग पास) राधेलाल यादव घर तक  
 पश्चिम में :- राधेलाल घर से महामाया रोड होते हुए जय मॉ शीतला बर्तन दुकान तक

### वार्ड क्रमांक 3 – गणेश चौक वार्ड

- उत्तर में :- केडिया मार्ग मुरुम खदान से महामाया मंदिर तक  
 पूर्व में :- महामाया मंदिर से एसएलआरएम सेंटर 03 होते हुए नया तालाब कोने तक  
 दक्षिण में :- नया तालाब कोने से राजकुमार सिन्हा पान दुकान तक  
 पश्चिम में :- राजकुमार सिन्हा पान दुकान से केडिया मार्ग मुरुम खदान तक

### वार्ड क्रमांक 4 – महामाया वार्ड

- उत्तर में :- नया सब्जी मण्डी से केडिया मार्ग तक  
 पूर्व में :- केडिया मार्ग खदान पास से बाहरु होटल तक  
 दक्षिण में :- बाहरु होटल से पुराना शासकीय अस्पताल होते हुए शीला बागड़ी के घर तक  
 पश्चिम में :- शीला बागड़ी घर से नहर किनारे होते हुए नया सब्जी मंडी तक

### वार्ड क्रमांक 5 – बाजार चौक वार्ड

- उत्तर में :- महामाया मार्ग फिंगेश्वर साहू के दुकान से लट्ठी बाबा चौक तक  
 पूर्व में :- लट्ठी बाबा चौक से गौरव पथ होते हुए बड़झाड़ सोनकर किराना तक  
 दक्षिण में :- बड़झाड़ सोनकर किराना दुकान से बदरा साहू घर होते हुए लाला धीवर घर से पटवारी कार्यालय होते हुए गायत्री मंदिर तक  
 पश्चिम में :- गायत्री मंदिर से महामाया मार्ग फिंगेश्वर साहू के दुकान तक

**वार्ड क्रमांक 6 – गुरुघासीदास वार्ड**

- उत्तर में :- लालाराम धीवर के घर से सांस्कृतिक मंच से शिव धीवर के घर होते हुए रामेश्वर सोनकर घर के सामने बड़झाड़ तक
- पूर्व में :- बड़झाड़ से गौरव पथ होते हुए हनुमान मंदिर तक
- दक्षिण में :- हनुमान मंदिर से अशोक पान ठेला तक
- पश्चिम में :- अशोक पान ठेला से लालाराम धीवर घर तक

**वार्ड क्रमांक 7 – रामनगर वार्ड**

- उत्तर में :- लक्ष्मी साव के मकान से युवराज चन्द्राकर घर से कौशल वर्मा घर होते हुए मणिराम साहू घर तक
- पूर्व में :- मणिराम साहू घर से गार्डन बाउंड्री होते हुए महामाया मार्ग निलिश दुकान से शा.प्रा.शा. कुम्हारी बाजार चौक तक
- दक्षिण में :- शा.प्रा.शा. कुम्हारी बाजार चौक से पात्रा तालाब होते हुए तालाब किनारे से शिव कुमार साहू के घर तक
- पश्चिम में :- शिवकुमार साहू के घर से नहर के पास खुली भूमि होते हुए लक्ष्मी साव के घर तक

**वार्ड क्रमांक 8 – शांति नगर वार्ड**

- उत्तर में :- आईएचएसडीपी कालोनी से राजकुमार सिन्हा घर से डोरेलाल सिन्हा के घर होते हुए पात्रा तालाब पार होते हुए रवि वर्मा वेल्डिंग दुकान तक
- पूर्व में :- रवि वर्मा वेल्डिंग दुकान से रमेश साहू का दुकान से नारायण वर्मा के घर होते हुए बाघमारे के घर तक
- दक्षिण में :- बाघमारे के घर से खपरगड़िया का घर होते हुए भरत सिन्हा का मकान तक
- पश्चिम में :- भरत सिन्हा के मकान से रेखराम साहू के घर से खुली भूमि होते हुए आईएचएसडीपी कालोनी तक

**वार्ड क्रमांक 9 – शिव नगर वार्ड**

- उत्तर में :- अवध चक्रधारी के मकान से आईएचएसडीपी कालोनी के दक्षिण भाग डा. राजेश क्लिनिक से भरत सिन्हा घर होते हुए बालाजी मेडिकल तक
- पूर्व में :- बालाजी मेडिकल से महामाया रोड होते हुए विनोद चन्द्राकर के दुकान तक
- दक्षिण में :- विनोद चन्द्राकर के दुकान से डॉ. सईद के घर तक
- पश्चिम में :- डॉ. सईद के घर से खुली भूमि होते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र नहर किनारे होते हुए अवध चक्रधारी के मकान तक



**वार्ड क्रमांक 10 – शंकर नगर वार्ड**

- उत्तर में :- डागाजी के फैक्ट्री से स्प्रिंग डेल्टा स्कूल, गुजराती भवन होते हुए सरस्वती निर्मलकर के घर तक
- पूर्व में :- सरस्वती निर्मलकर के घर से उषादीन बंधु के घर होते हुए सरामा वर्गीस के घर तक
- दक्षिण में :- सरामा वर्गीस के घर से महामार्ग मार्ग होते हुए ओमनारायण वर्मा के घर होते हुए विद्या ज्योति स्कूल नहर किनारे होते हुए जी.ई.रोड यात्री प्रतीक्षालय तक
- पश्चिम में :- यात्री प्रतीक्षालय से अहिवारा मार्ग डागाजी के फैक्ट्री तक

**वार्ड क्रमांक 11 – कैलाश नगर वार्ड**

- उत्तर में :- दशमेश ढाबा से बालाजी उद्योग धमधा मार्ग तक
- पूर्व में :- बालाजी उद्योग धमधा मार्ग से जी.ई.रोड स्टेशन चौक लखन होटल होते हुए गैंग खोली द्वारिका के मकान तक
- दक्षिण में :- द्वारिका के मकान से लखन होटल होते हुए रावजी भाई के गोडाउन तक
- पश्चिम में :- रावजी भाई के गोडाउन से जी.ई.रोड दशमेश ढाबा तक

**वार्ड क्रमांक 12 – डंगनिया तालाब वार्ड**

- उत्तर में :- राठी बर्तन भंडार से खारुन नदी पुराना पुल तक
- पूर्व में :- खारुन नदी पुराना पुल से मगरघटा नाला तक
- दक्षिण में :- मगरघटा नाला से पाहन्दा नाला पुलिया तक
- पश्चिम में :- पाहन्दा नाला पुलिया से परसदा रेल्वे फाटक से रेल्वे लाईन किनारे होते हुए गैंग खोली राठी बर्तन भंडार से तक

**वार्ड क्रमांक 13 – संजय नगर वार्ड**

- उत्तर में :- उड़िया बस्ती से खारुन नदी गंगा नगर तक
- पूर्व में :- खारुन नदी गंगा नगर से केडिया पंप होते हुए टोल प्लाजा जी.ई.रोड तक
- दक्षिण में :- जी.ई.रोड टोल प्लाजा से आक्सीजन कालोनी (तालाब रोड) तक
- पश्चिम में :- आक्सीजन कालोनी (तालाब रोड) से उड़िया बस्ती तक

**वार्ड क्रमांक 14 – कांजी हाउस वार्ड**

- उत्तर में :- दुधेराम साहू के घर से महामाया रोड किशोर किराना होते हुए कंचनलता चन्द्राकर के घर तक
- पूर्व में :- कंचनलता चन्द्राकर के घर से हाई स्कूल होते हुए जी.ई.रोड हिम्मत फैक्ट्री बाउन्ड्री तक
- दक्षिण में :- जी.ई. रोड हिम्मत फैक्ट्री बाउन्ड्री से वर्धमान शोरुम तक
- पश्चिम में :- वर्धमान शोरुम से वाटर ए.टी.एम. होते हुए बीर सिंग के मकान होते हुए दुधेराम साहू घर तक

**वार्ड क्रमांक 15 – हाउसिंग बोर्ड वार्ड**

- उत्तर में :- प्रभुदयाल काम्पलेक्स महामाया रोड होते हुए न.पा.पंप हाउस वार्ड 15 तक
- पूर्व में :- न.पा.पं. हाउस वार्ड 15 से साहू मोटरबाड़ी होते हुए पुलिस थाना कुम्हारी तक
- दक्षिण में :- पुलिस थाना कुम्हारी से जी.ई.रोड नंद किराना स्टोर्स तक
- पश्चिम में :- नंद किराना स्टोर्स से नहर किनारे उड़िया पारा होते हुए प्रभुदयाल काम्पलेक्स तक

**वार्ड क्रमांक 16 – परसदा वार्ड (ग्राम परसदा)**

- उत्तर में :- रेल्वे स्टेशन के पीछे से दुर्ग रेल्वे लाईन होते हुए परसदा रेल्वे गेट तक
- पूर्व में :- परसदा रेल्वे गेट से ब्रम्हलोक आश्रम होते हुए पाहंदा नाला तक
- दक्षिण में :- पाहंदा नाला से परसदा नाला किनारे जोश बाड़ी तक
- पश्चिम में :- जोश बाड़ी (परसदा नाला किनारे) से रेल्वे स्टेशन के पीछे दुर्ग रेल्वे लाईन तक

**वार्ड क्रमांक 17 – रामपुर वार्ड (ग्राम चोरहा)**

- उत्तर में :- सुरजीडीह नाला पुलिया से मुक्तिधाम होते हुए चोरहा नाला तक
- पूर्व में :- चोरहा नाला से दर्री तालाब होते हुए रामलखन चतुर्वेदी के बाड़ी तक
- दक्षिण में :- रामलखन चतुर्वेदी के बाड़ी से दशमेश ढाबा तक
- पश्चिम में :- दशमेश ढाबा से वेतन साहू के घर होते हुए सुरजीडीह नाला तक

**वार्ड क्रमांक 18 – तालाब पार वार्ड (ग्राम कुगदा)**

- उत्तर में :- डी.एम.सी. कुगदा मोड़ से रामविलास तिवारी घर होते हुए कुंजलाल निर्मलकर लाण्डी तक
- पूर्व में :- कुंजलाल निर्मलकर लाण्डी से रेल्वे स्टेशन कुम्हारी तक
- दक्षिण में :- रेल्वे स्टेशन कुम्हारी से रेल्वे पटरी होते हुए कुगदा रेल्वे फाटक तक
- पश्चिम में :- कुगदा रेल्वे फाटक से जी.ई.रोड डी.एम.सी. कुगदा मोड़ तक

**वार्ड क्रमांक 19 – आदर्श नगर डी.एम.सी. वार्ड (ग्राम कुगदा)**

- उत्तर में :- सुरेश किराना दुकान से जंजगिरी शीतला मंदिर होते हुए साईं निवास होते हुए आईसीएफआई कालेज पावर ग्रिड राम लखन बाड़ी तक
- पूर्व में :- राम लखन बाड़ी से जी.ई.रोड पार कर करीम दुकान होते हुए सार्थक कालोनी तक
- दक्षिण में :- सार्थक कालोनी से रुग्धर बाड़ी होते हुए राईस मिल पटनायक के घर तक
- पश्चिम में :- पटनायक के घर से जी.ई.रोड पार करते हुए चन्द्रपाल के घर से सुरेश किराना दुकान तक

**वार्ड क्रमांक 20 – भारत नगर वार्ड (ग्राम कुगदा)**

- उत्तर में :- धरमपाल सिंग सरदार के घर से नहर किनारे होते हुए संतोष पंडित घर तक
- पूर्व में :- संतोष पंडित के घर से रेल्वे गेट होते हुए उरलारोड दशरथ यादव घर तक
- दक्षिण में :- दशरथ यादव के घर से राजेश साहू नर्सरी तक
- पश्चिम में :- राजेश साहू नर्सरी से श्यामजी सेन घर से शिव अग्रवाल घर होते हुए धरमपाल सिंग सरदार के घर तक

**वार्ड क्रमांक 21 – कबीर नगर वार्ड (ग्राम कुगदा)**

- उत्तर में :- देवा साहू के घर से गौठान सांस्कृतिक मंच होते हुए शा.प्रा.शाला तक
- पूर्व में :- शा.प्रा.शा. से मन्नूलाल रंगारी, अजय मिश्रा घर से खुली भूमि होते हुए चैतराम घर पास शिव मंदिर तक
- दक्षिण में :- शिव मंदिर चैतराम घर पास से रेल्वे नर्सरी से ब्यास के घर तक
- पश्चिम में :- ब्यास के घर से देवा साहू के घर तक

**वार्ड क्रमांक 22 – सत्य नगर वार्ड (ग्राम कुगदा)**

- उत्तर में :- चन्दनिया तालाब का पश्चिम भाग नहर से तनु कंशट्रक्शन तक
- पूर्व में :- तनु कंशट्रक्शन से खुली भूमि होते हुए महुआ तालाब (शीतला मंदिर) तक
- दक्षिण में :- महुआ तालाब (शीतला मंदिर) से गजानंद का घर पचरी तालाब तक
- पश्चिम में :- पचरी तालाब से चन्दनिया तालाब तक

**वार्ड क्रमांक 23 – इंदिरा नगर वार्ड (ग्राम जंजगिरी)**

- उत्तर में :- गोवर्धन साहू के घर से राम मंदिर से खुलीभूमि होते हुए कर्मा भवन तक
- पूर्व में :- कर्मा भवन से शक्ति मंदिर होते हुए शासकीय हाई स्कूल के पीछे मनोज विश्वकर्मा के घर तक
- दक्षिण में :- मनोज विश्वकर्मा घर से रावण भाठा होते हुए मानसरोवर अंग्रेजी स्कूल तक
- पश्चिम में :- मान सरोवर अंग्रेजी स्कूल से गोवर्धन साहू के घर तक

**वार्ड क्रमांक 24 — महात्मा गांधी वार्ड (ग्राम जंजगिरी)**

- उत्तर में :- मोहन लाल साहू के घर से सुरजीडीह नाला होते हुए सुरजीडीह मार्ग पार कर रामपुर चोरहा परसराम कुर्रे के घर तक
- पूर्व में :- परस राम कुर्रे के घर से अटल आवास से लीमेगनेस कालेज होते हुए वैध के घर तक
- दक्षिण में :- वैध के घर से भागबली के घर होते हुए डॉ. केशव साहू के घर तक
- पश्चिम में :- डॉ. केशव साहू के घर से सुरजीडीह मार्ग होते हुए मोहन लाल साहू घर तक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक—एफ 1-140/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-140/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

**NOTIFICATION**

No. F1-140/2019.- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Municipal Council **Kumhari** , Distt **Durg** as per shedule given Below :-

1. Divides Municipal Council Kumhari. into 24 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

**SCHEDULE**

<b>S.No.of ward</b>	<b>Name of the ward</b>
1	BAJRANG CHOWK WARD
2	DURGA CHOWK WARD
3	GANESH CHOWK WARD
4	MAHAMAYA WARD
5	BAZAR CHOWK WARD
6	GURUGHASIDAS WARD
7	RAMNAGAR WARD
8	SHANTI NAGAR WARD
9	SHIV NAGAR WARD
10	SHANKAR NAGAR WARD
11	KAILASH NAGAR WARD
12	DANGANIYA TALAB WARD
13	SANJAY NAGAR WARD
14	KANJI HOUSE WARD
15	HOUSING BOARD WARD
16	PARSADA WARD ( GRAM PARSADA)
17	RAMPUR WARD (GRAM CHORHA)
18	TALAB PAR WARD (GRAM KUGDA)
19	AADARSH NAGAR DMC WARD (GRAM KUGDA)
20	BHARAT NAGAR WARD (GRAM KUGDA)
21	KABIR NAGAR WARD (GRAM KUGDA)
22	SATYA NAGAR WARD (GRAM KUGDA)
23	INDIRA NAGAR WARD (GRAM JANJGIRI)
24	MAHATMA GANDHI WARD (GRAM JANJGIRI)

### **Descriptions of the Boundries of ward of Municipal Council Kumhari.**

#### **Ward No. 1 - BAJRANG CHOWK WARD**

- North :- From Latti Baba Chowk to Badi Via Purani Hatri  
 East :- From Badi to G.E. Road Via bada Talab North Portion  
 South :- From G.E. Road Bada Talab Side to Nagar Palika Gourav Path Road  
 West :- From Nagar Palika Gourav Path Road to Latti Baba Chowk

#### **Ward No. 2 - DURGA CHOWK WARD**

- North :- From Jai Maa Sheetla bartan Shop to Ramnarayan patel house Via Azad Chowk  
 East :- From Ramnarayan patel house to Purana Hatri Via Talab Par  
 South :- From Purani Hatri to Radhelel Yadav house Via Latti Baba Chowk (Near Mahamaya raod)  
 West :- From Radhelal House to Jai maa sheetla bartan shop Via Mahamaya Road

#### **Ward No. 3 - GANESH CHOWK WARD**

- North :- From Kediya Road Murum khadan to Mahamaya Mandir  
 East :- From Mahamaya mandir to Naya Talab Kona via SLRM Center 03  
 South :- From Naya Talab Kona to Rajkumar Sinha Paan Shop  
 West :- From Rajkumar Sinha Paan Shop to Kediya Road Murum Khadan

#### **Ward No. 4 - MAHAMAYA WARD**

- North :- From Naya Sabji Mandi to Kediya Road  
 East :- From Kediya Road khadan to Bahru Hotel  
 South :- From Bahru Hotel to Sheela Bagdi House via Old Government hospital  
 West :- From Sheela Bagdi House to Naya Sabji Mandi via Nahar Kinar

#### **Ward No. 5 - BAZAR CHOWK WARD**

- North :- From Mahamaya road fingseshwar sahu shop to latti baba chowk  
 East :- From Latti baba chowk to badjhad sonkar kirana store via gourav path  
 South :- From Badjhad sonkar kirana store to Gayatri Mandir via badra sahu house , lala dhivar house ,patwari office  
 West :- From Gayatri mandir to Mahamaya road fingseshwar sahu shop

Ward No. 6 - GURUGHASIDAS WARD

- North :- From Lalaram Dhivar house to rameshwar sonkar house front badjhad via Sanskritik manch, shiv dhivar house  
 East :- From Badjhad to Hanuman mandir via Gourav path  
 South :- From Hanuman mandir to ashok paan thela  
 West :- From Ashok paan thela to Lalaram dhivar house

Ward No. 7 - RAMNAGAR WARD

- North :- From Laxmi Sao house to maniram sahu house via yuvraj chandrakar house ,Kaushal verma house  
 East :- From Maniram sahu house to Govt. primary shool kumhari bazaar chowk via garden boundary, mahamaya road nilish shop  
 South :- From Govt. primary shool kumhari bazaar chowk to shiv kumar sahu house via patra talab Side  
 West :- From Shiv kumar sahu house to laxmi sao house via near canal open land

Ward No. 8 - SHANTI NAGAR WARD

- North :- From IHSDP colony to Ravi verma welding shop via Rajkumar sinha house , Dorelal sinha house , patra talab,paar  
 East :- From Ravi verma welding shop to baghmare house via ramesh sahu shop , Narayan verma house  
 South :- From Baghmare house to Bharat sinha house via khapargadiya house  
 West :- From Bharat sinha house to IHSDP colony via Rekhrum sahu house , open land

Ward No. 9 - SHIV NAGAR WARD

- North :- From Avadh chakradhari house to Balaji Medical via IHSDP colony south area Dr. Rajesh clinic , Bharat sinha  
 East :- From Balaji Medical to Vinod chandrakar shop via Mahamaya road  
 South :- From Vinod chandrakar shop to Dr. Sayed house  
 West :- From Dr. Sayed house to Avadh chakradhari house via open land , Aanganbadi center canal side

Ward No. 10 - SHANKAR NAGAR WARD

- North :- Fom Dagaji Factory to Saraswati nirmlkar house via Spring Dales School, Gujrati bhawan  
 East :- From Saraswati nirmalkar house to Sarama Vargis house via Ushadinbandhu house  
 South :- From Sarama vargis house to G.E.Road yatri pratikchalay via mahamaya road Omnarayan verma house , Vidya jyoti School canal side  
 West :- From Yatri pratikchalay to Dagaji Factory via Ahiwara road

Ward No. 11 - KAILASH NAGAR WARD

- North :- From Dashmesh Dhaba to Balaji Udyog Dhamdha road  
 East :- From Balaji Udyog Dhamdha road to G.E. Road Station chowk via Lakhan hotel ,gang kholi dwarika house  
 South :- From Dwarika house to Ravji bhai Godown via Lakhan hotel  
 West :- From Ravji bhai Godown to G.E. Road Dashmesh Dhaba

Ward No. 12 - DANGANIYA TALAB WARD

- North :- From Rathi bartan bhandar to Kharun nadi old.pool  
 East :- From Kharun nadi old pool to Magarghata nala  
 South :- From Magarghata nala to Pahanda Nala puliya  
 West :- From Pahanda nala puliya to Rathi Bartan Bhandar gang kholi via Parsada Railway Fatak Railway Line

Ward No. 13 - SANJAY NAGAR WARD

- North :- From Udiya basti to kharun nadi ganga nagar  
 East :- From Kharun nadi ganga nagar to tol plaza G.E. road Via kediya pump  
 South :- From G.E. Road tol plaza to Oxygen colony (Talab Road)  
 West :- From Oxygen colony (Talab Road) to Udiya basti

Ward No. 14 - KANJI HOUSE WARD

- North :- From Dudheram sahu to Kanchanlata chandrakar house via Mahamaya road Kishore kirana  
 East :- From Kanchanlata chandrakar house to G.E. Road Himmat factory boundary Via High School  
 South :- From G.E. Road Himmat factory boundary to Vardhman showroom  
 West :- From Vardhman showroom to Dudheram Sahu house via water ATM , Birsingh house

Ward No. 15 - HOUSING BOARD WARD

- North :- From Prabhudayal complex Mahamaya road to N.P.Pump Ward 15  
 East :- From N.P. Pump house ward 15 to Police thana kumhari via Sahu motorbody  
 South :- From Police thana kumhari to G.E. Road Nand kirana store  
 West :- From Nand Kirana store to Prabhudayal complex via canal side Udiya para



Ward No. 16 - PARSADA WARD ( GRAM PARSADA)

- North :- From Railway Station back to Parsada Railway Gate via Durg Railway line  
 East :- From Parsada Railway Gate to Pahanda Nala via Bramhlok Aashram  
 South :- From Pahanda Nala to Josh Badi via Parsada Nala Side  
 West :- From Josh badi (Parsada Nala Side) to Durg Railway line via Railway Station behind

Ward No. 17 - RAMPUR WARD (GRAM CHORHA)

- North :- From Surjidi Nala puliya to chorha nala Via muktidham  
 East :- From Chorha nala to Ramlakhan chaturvedi badi via Darri Talab  
 South :- From Ramlakhan Chaturvedi badi to Dashmesh Dhaba  
 West :- From Dashmesh Dhaba to Surjidi Nala via Vetan Sahu house

Ward No. 18 - TALAB PAR WARD (GRAM KUGDA)

- North :- From D.M.C. Kugda Mod to Kunjlal nirmalkar laundry via Ramvilash tiwari house  
 East :- From Kunjlal nirmalkar laundry to Railway station kumhari  
 South :- From Railway Station kumhari to kugda railway fatak via railway patri  
 West :- From Kugda railway fatak to G.E. Road D.M.C. Kugda Mod

Ward No. 19 - AADARSH NAGAR D.M.C. WARD (GRAM KUGDA)

- North :- From Suresh Kirana shop to ICFI College power grid Ram lakhan badi via Janjiri sheetla mandir , sai niwash  
 East :- From Ram lakhan badi to Sarthak colony Via Crossing G.E. Road Karim shop  
 South :- From Sarthak colony to Rice mill Patnayak house via Rugdhar bado  
 West :- From Patnayak house to Suresh kirana shop via Croosing G.E. Road Chandrapall hous

Ward No. 20 - BHARAT NAGAR WARD (GRAM KUGDA)

- North :- From Dharampull singh sardar house to Santosh Pandit house via canal side  
 East :- From Santosh Pandit house to Dashrath Yadav house via Railway Gate Urla road  
 South :- From Dashrath Yadav house to Rajesh sahu Nursarry  
 West :- From Rajesh sahu Nursarry to Dharampull singh sardar house via Shyamji sen house , Shiv Agrawall house

Ward No. 21 - KABIR NAGAR WARD (GRAM KUGDA)

- North :- From Dewa sahu house to Govt. primary school via Gauthan Sanskritik manch
- East :- From Govt. primary school to Chaitram house near Shiv Mandir via Mannulal Rangari, Ajay Mishra house , open land
- South :- From Shiv Mandir Chaitram house near to Byas house via Railway Nursarry
- West :- From Byas house to Dewa sahu house

Ward No. 22 - SATYA NAGAR WARD (GRAM KUGDA)

- North :- From Chandaniya talab to Tanu Construction via canal west portion
- East :- From Tanu Construction to Mahua Talab (Sheetla Mandir) via open land
- South :- From Mahua Talab (Sheetla Mandir) to Gajanand house Pachri Talab
- West :- From Pachri Talab to Chandaniya Talab

Ward No. 23 - INDIRA NAGAR WARD (GRAM JANJGIRI)

- North :- From Goverdhan Sahu house to Karma Bhawan via Ram Mandir open land
- East :- From Karma Bhawan to Manoj Vishvkarma house via Shakti Mandir to Govt. High School back side
- South :- From Manoj Vishvkarma house to Mansarovar English School via Ravan Bhata
- West :- From Mansarovar English School to Goverdhan Sahu house

Ward No. 24 - MAHATMA GANDHI WARD (GRAM JANJGIRI)

- North :- From Mohan lal sahu house to Paras ram Kurre house Rampur chorha via Surjidihi Nala , Surjidihi road crossing
- East :- From Paras Ram Kurre house to Vaidh house via Atal Awas , Limegnes College
- South :- From Vaidh house to Dr. Keshav Sahu house via Bhagbali house
- West :- From Dr. Keshav Sahu house to Mohan lal sahu house via Surjidihi road

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,  
R.EKKA, Deputy Secretary. ✓